



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1947 (श10)
(सं० पटना 1000) पटना, मंगलवार, 27 मई 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
23 मई 2025

सं० 11/न0वि0/गठन-05/2025/1476—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा 3 सह पठित धारा 4 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप प्रकाशित करना चाहते हैं, जिससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या-11/न0वि0/गठन-05/2025/बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखण्ड के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है:—

क्र० सं०	प्रस्तावित नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना नं०	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं० सहित)	प्रस्तावित नगर पंचायत का क्षेत्रफल	प्रस्तावित नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
जिला का नाम—औरंगाबाद					
1	नगर पंचायत, मदनपुर	दशवतखाप(784) मदनपुर (785)	उत्तर—घोरहत (786) दक्षिण—उमगा (986) पूरब—खिरियावां (783) पश्चिम—उमगा (986)	5.04 वर्ग कि०मी०	12131

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, मदनपुर कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

23 मई 2025

सं० 11/न०वि०/गठन-05/25/1476 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 23rd May 2025

No.-11/N. Vi./Gathan-05/25/1476— In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information of the persons who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft will be considered within a month from the date of publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/ Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section 5 of the said Act.

Draft Order

Memo No- 11/N. Vi./Gathan-05/25/In exercise of powers conferred by Section 3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provisions and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling under Madanpur Block of the District of Aurangabad whose boundary, area and population are noted below:-

Sl.no	Name of Urban Body	Name /thana no. of included Villages	Boundary (with thana no.) of Nagar Panchayat	Area of Nagar Panchayat	Total Population of Nagar Panchayat (as per census year, 2011)
1	2	3	4	5	6
Name of District- Aurangabad					
1	Nagar Panchayat, Madanpur	Dashvatkhap-784 Madanpur-785	North-Ghorhat(786) South-Unga(986) East-Khriyawan (783) West- Unga(986)	5.04 Sqare K.M.	12131

This area will be called Nagar Panchayat, Madanpur.

2.This notification shall come into force at once.

By the order of the Governor of Bihar,
Abhay Kumar Singh,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1000-571+200-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>